



अधिसूचना

के.मा.शि.बो./शै./शि. अधि./पी.आर./ 2014

अधिसूचना संख्या 19
दिनांक 27 मार्च 2014

के.मा.शि.बो. से संबद्धता प्राप्त
सभी संस्थानों के प्रमुख

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

कैप्टन डी. पी चौधरी मार्ग, अजमेर 305 004, राजस्थान

विषय: समान प्रवेश परीक्षा (सी.ई.ई.-2014)

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एवं मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए बी.एस.सी, बी.एड. एवं बी.एस.सी.एड. के चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम में प्रवेश को प्रस्तावित करते हैं।

पाठ्यक्रम का विषय क्षेत्र-यह चार वर्षीय नवाचारी पाठ्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास पर आधारित है। शिक्षार्थी-शिक्षक इस पाठ्यचर्या से अवश्य ही लाभान्वित होंगे क्योंकि यह पाठ्यचर्या व्यावसायिक एवं सम्प्रेषण कौशलों के विकास के अद्यतन सैद्धान्तिक ज्ञान पर आधारित है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तावित यह व्यापक अध्ययन योजना शिक्षार्थी-शिक्षक को आधारभूत ज्ञान, तकनीकी जानकारी तथा आज की ज्ञान प्रेरक कक्षाओं में प्रभावी व कुशल रूप से कार्य करने के आत्मविश्वास से सुसज्जित करती है। यह पाठ्यचर्या उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं सुविख्यात व स्थापित स्कूलों में रिक्त पदों की भर्ती हेतु आयोजित साक्षात्कारों में एक सुनिश्चित लाभ प्रदान करता है।

प्रक्रिया-इस पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन पत्र को जमा करने के लिए आप www.ncert.nic.in अथवा www.rieajmer.ac.in पर जाएं। अन्य किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया दिये गये नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं [0145] 2990140/2644630

पात्रता-सभी राज्यों एवं भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं शेष छात्रों में से 50% के लिए एन.सी.ई.आर.टी के मानक अनुसार छात्रवृत्ति प्रस्तावित है।

नोट: परिसर में छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक् हॉस्टल सुविधा सभी केन्द्रों में उपलब्ध है।

शिक्षण व्यवसाय से अधिक है। यह एक निमन्त्रण है।

शिक्षक प्रतिदिन कक्षाओं में भविष्य का निर्माण करते हैं।

शिक्षण आपको सकारात्मक अभिवृत्ति प्रदान करता है।

शिक्षा प्रति दिन व्यक्ति को रचनात्मकता एवं स्वायत्त होने के अवसर प्रदान करती है।

शिक्षक जीवन पर्यन्त अधिगमन कर्ता हैं, जो विकास और वृद्धि के अवसर का आनंद लेते हैं।

आप कक्षा में प्रतिदिन एक सबसे बड़ी पूंजी लाते हैं जो है आपका अद्भुत व्यक्तित्व। अच्छे प्रशिक्षित शिक्षक विरले ही मिलते हैं और उनकी निरंतर माँग रहती है।

क्रम संख्या	कार्यक्रम	दिनांक
1	रजिस्ट्रेशन का प्रारम्भ	25 मार्च, 2014
2	रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	25 अप्रैल, 2014
3	डाक एवं व्यक्तिगत तौर पर क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर में पूर्ण रूप से भरे हुए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	2 मई, 2014
4	प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करने की तिथि	9 मई, 2014 एवं उसके आगे की तिथियों में
5	समान प्रवेश परीक्षा	31 मई, 2014
6	कक्षा XII के उन छात्रों की अंक तालिका जमा करने की अन्तिम तिथि जो सीसीई में बैठे हैं।	20 जून, 2014
7	परिणाम घोषणा	जुलाई का प्रथम सप्ताह

भवदीया

हस्ताक्षरित/-

डॉ. साधना पाराशर

निदेशक (शैक्षणिक/ अनुसंधान /प्रशिक्षण एवं नवाचार)